

प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 19.02.2021

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन में मैं उपनिरीक्षक श्री भागवत चौधरी मय हमराही कर्मचारी गण का० सुनील कुमार का० लक्ष्मण प्रसाद, का० सौरभ मौर्या का० मुकेश कुमार देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटर सायकिल लेकर आ रहा है, जल्दी किया जाय तो गिरफ्तारी व बरामदगी हो सकती है इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारी गणों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मुखबीर के साथ रवाना महुआ डाबर चौराहा पर आकर आने वाले व्यक्ति का इन्तजार करने लगे, कि कुछ देर बाद एक व्यक्ति मोटर सायकिल से आता हुआ दिखाई दिया मुखबीर खास ने इशारे से बताया कि यह वही है जिसके बारे में मैंने आप को सूचना दिया है हम पुलिस वाले एका एक पहुंच कर रोके तो हम पुलिस वालों को देख कर वह व्यक्ति पिछे मुडकर भागना चाहा कि हम पुलिस वाले घेर कर पकड़ लिये मोटर सायकिल का नम्बर देखा गया तो नम्बर प्लेट नही था, इन्जन न० व चेचिस न० का मिलान किया गया तो ज्ञात हुआ कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 36/2021 धारा 379,489,411 भावदि मे चोरी गयी मोटर सायकिल एच०एफ० डिलक्स का है , उक्त मोटर सायकिल व भागने के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने अपना नाम उपवन सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह नि० वार्ड न० 6 दोनखर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर बताया साहब मुझसे गलती हो गयी है, यह मोटर सायकिल चोरी की है विश्वास हो जाने पर तलाशी लेते हुए पुलिस हिरासत मे दिनांक 19.02.2021 समय करीब 05.30 बजे सुबह लिया गया व मुकदमा से सम्बन्धित वाहन बरामद किया गया ।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त-

उपवन सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह नि० वार्ड न० 6 दोनखर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर

जिस अभियोग में गिरफ्तार किया गया

मु०अ०सं०-36/2021 धारा 379,489,411 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर

बरामदगी

एक अदद मोटर सायकिल एच०एफ० डिलक्स चेचिस न० MBLHAR20XJHE04026 इन्जन न० HA11ENJHE17464

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

- 1.उ०नि० श्री भागवत चौधरी
- 2.का० सुनील कुमार
- 3.का० लक्ष्मण प्रसाद
4. का० सौरभ मौर्या
5. का० मुकेश कुमार

